



## क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

E mail: ropcbshahadol@gmail.com

कमांक २५५/क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2020  
प्रति,

दिनांक २५/०९/2020

प्रबंधक,

मे.एम.बी.पावर लिमि.जैतहरी,

जिला-अनूपपुर (म.प्र.)


विषय:- भुगतान दर पर आधारित जल/वायु/ध्वनि विश्लेषण रिपोर्ट बावत्।

संदर्भ:-आपका भुगतान प्राप्त दिनांक...18.08.2020....

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा भेजा गया जल/वायु/ध्वनि विश्लेषण शुल्क रूपये 118150.00 (रु. एक लाख अठारह हजार एक सौ पचास मात्र) का भुगतान RTGS के माध्यम से इस कार्यालय के खाता कमांक 12930200000299 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शहडोल, में जमा उपरांत प्राप्त हो गया है, तद संबंध में विश्लेषण रिपोर्ट आपकी ओर प्रेषित है।


संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

  
प्रयोगशाला प्रभारी  
क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
शहडोल (म.प्र.)

014



**REGIONAL OFFICE**  
**M. P. POLLUTION CONTROL BOARD**  
**SHAHDOL -484001 ■ 07652 248938**  
**Email-ropcbshahadol@gmail.com**



**AIR MONITORING REPORT**

Date: 12.06.2020

Name of Industry : M/S M. B. Power Ltd. Jaitahri Distt. Anuppur (M.P.)

Date of Sampling : 11.06.2020

Date of Analysis : 12.06.2020

Sample Collected by : Dr.A.K. Dubey Scientist & Lab Staff

Sample Analysed by : B.M. Patel, Jr. Scientist

Stack Sampling Point: -  
1. Unit no. - I      2. Unit no. - II

S.No.	Parameters	Unit	Stack- I	Stack - II	Stack - III
01	Particulate Matter (PM)	mg/ NM3	44.3	38.8	--
02	Sulphur dioxide (SO2)	mg/ NM3	--	--	--
03	Nitrogen dioxide (Nox)	mg/ NM3	--	--	--

Ambient Sampling Point:-

A. Near Fild Hostal                      E. Near D. M. Plant  
B. Near swith Yard                      F. Near Cilo Area  
C. Near Main Gate  
D. Near C.H.P.

S.N	Parameters	Unit	A	B	C	D	E	F
0.								
1	Particulate Matter (PM10)	µg/ M3	80.26	82.32	88.45	140.21	81.20	136.42
2	Sulphur dioxide (SO2)	µg/ M3	12.17	13.56	12.08	16.28	11.40	18.22
3	Nitrogen dioxide (NOx)	µg/ M3	14.10	16.25	17.04	21.48	17.56	22.02
4	Average Noise Level	dB	60.26	71.07	62.45	--	68.30	--

Remark : During the monitoring time Weather was clear and water sprinkler was running condition.

1.  Indicate that the values exceed permissible limit.
2. Compared with MPPCB Standard.


  
Chemist

  
jr. Scientist

  
Lab. Incharge



**REGIONAL OFFICE**  
**M. P. POLLUTION CONTROL BOARD**  
**SHAHDOL -484001 ■ 07652 248938**  
**Email-ropcbshahadol@gmail.com**



## Water Analysis Report

**1. Name of Industry :- M/S M. B. Power Ltd. Jaithahri**  
**Distt. Anuppur.( M.P.)**

**2. Discription of sample :-**

- A. water sample From inlet of S.T.P.
- B. Treated water sample From S.T.P.outlet.
- C. water sample from E.T.P. Inlet.
- D. Treated water sample from E.T.P.outlet.
- E. Pizometric no.6 near Yespond (FOPH)
- F. Pizometric no.7 near Yespond (Coal Yard)
- G. Pizometric no. 4 Near Reservair
- H. water sample from Kirna nalla U/S
- I. water sample form Kirna nalla D/S

**3. Date of sampling :- 11.06.2020**

**4. Date of a nalysis :- 12.06.2020**

**5. Sample Collected By :- Dr. A.K.Dubey Scientist & lab.staff.**

**6. Sample Analysis By :-B.M.Patel (JS), A.K.Sharma Chimist.**

S. no	Characteristics	Unit	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Temperature	°C	22.5	22.3	22.7	22.5	23.4	23.3	22.2	22.1	22.5
2.	Appearance	-	clear	clear	clear	clear	clear	clear	clear	clear	clear
3.	Colour	-	C.L.	C.L.	C.L.	C.L.	C.L.	C.L.	C.L.	C.L.	C.L.
4.	Odour	-	sl.upl esent	sl.unp lesent	O.L.	O.L.	O.L.	O.L.	O.L.	O.L.	O.L.
5.	pH	pH U.	7.86	7.2	7.5	7.8	7.8	7.7	7.9	8.0	7.5
6.	Total Solids	Mg/l	844	516	583	313	369	522	312	369	425
7.	T.D.S.	Mg/l	659	491	493	292	324	481	280	344	394
8.	S.S.	Mg/l	185	25	90	21	45	41	32	25	31
9.	Chloride	Mg/l	249.9	187.2	137.9	157.6	78.8	108.3	68.9	68.9	44.4
10.	B.O.D.	Mg/l	48.4	11.4	24.6	8.4	1.3	0.8	0.4	2.2	2.4
11.	C.O.D.	Mg/l	120.6	76.8	140.4	48.0	9.6	4.8	4.8	14.4	18.2
12.	Oil & Greas	Mg/l	-	-	7.6	4.3	-	-	-	-	-

Compared with Standard prescribed by MPPCB in MP Gazette  
notification Dated: 25.03.88

  
**Chemist**

  
**Jr. Scientist**

  
**Lab incharge**